



# झारखण्ड गजट

## असाधारण अंक

### झारखण्ड सरकार द्वारा प्रकाशित

---

5 पौष, 1941 (श०)

---

संख्या- 1069 राँची, गुरुवार, 26 दिसम्बर, 2019 (ई०)

---

#### कार्मिक, प्रशासनिक सुधार तथा राजभाषा विभाग

-----  
संकल्प

19 दिसम्बर, 2019

**संख्या-5/आरोप-1-135/2017-27406 (HRMS)--** चूँकि झारखण्ड के राज्यपाल को यह विश्वास करने का कारण है कि श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओरमांडी, राँची के विरुद्ध ओरमांडी अंचल के मौजा-उकरीद, थाना नं0-63, खाता नं0-35, प्लॉट नं0-161, रकबा-9.99 डीसमिल भूमि, जिसे संजीवनी बिल्डकॉन प्रा0लि0 द्वारा श्री सबरजीत सिंह को अवैध रूप से बिक्री किया गया, के नामान्तरण की स्वीकृति देने तथा संजीवनी बिल्डकॉन प्रा0लि0 के द्वारा श्री रामकृपाल सिंह को मौजा-उकरीद, थाना नं0-63, खाता नं0-29, प्लॉट सं0-234, रकबा- 4.59 डीसमिल बिक्री की गयी भूमि का नामान्तरण स्वीकृत करने के उपरांत स्वयं नियमविरुद्ध नामान्तरण अस्वीकृत करने संबंधी आरोप, जैसा कि राजस्व, निबंधन एवं भूमि सुधार विभाग, झारखण्ड, राँची के पत्रांक-4514(9)/रा0, दिनांक 04.09.2017 के माध्यम से प्राप्त जिला स्थापना उप समाहर्ता, राँची के पत्रांक-135(i)/स्था0, दिनांक 15.07.2017 गठित प्रपत्र- 'क' में प्रतिवेदित है, प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित पाया गया है।

2. अतः श्री कुमार के विरुद्ध प्रपत्र- 'क' में गठित आरोपों की जाँच हेतु झारखण्ड सरकारी सेवक (वर्गीकरण, नियंत्रण एवं अपील) नियमावली, 2016 के नियम-17 के तहत विभागीय कार्यवाही संचालित किए जाने का निर्णय लिया गया है।

3. तदनुसार एतद् द्वारा श्री कुमार को आदेश दिया जाता है कि इस संकल्प के प्राप्त होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अंदर जाँच हेतु नीचे नियुक्त संचालन पदाधिकारी के समक्ष उपस्थित होकर लिखित बचाव बयान उनके (संचालन पदाधिकारी के) समक्ष प्रस्तुत करें तथा उसकी प्रतिलिपि इस विभाग को भी उपलब्ध कराएँ।

4. श्री कुमार द्वारा संचालन पदाधिकारी के समक्ष समर्पित किए जाने वाले लिखित बचाव बयान में जिन आरोपों को स्वीकार नहीं किया जाएगा, उन आरोपों की जाँच के लिए झारखण्ड के राज्यपाल श्री गौरी शंकर मिंज, सेवानिवृत्त भा0प्र0से0, विभागीय जाँच पदाधिकारी, झारखण्ड, नगर प्रशासन भवन, एच.ई.सी., गोलचक्कर, धुर्वा, राँची को संचालन पदाधिकारी नियुक्त करते हैं।

5. श्री कुमार के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही के संचालन हेतु अपर समाहर्ता, राँची को उपस्थापन पदाधिकारी नामित किया जाता है।

6. विभागीय कार्यवाही के प्रस्ताव में सरकार का आदेश प्राप्त है।

Sr No.	Employee Name G.P.F. No.	Decision of the Competent authority
1	2	3
1	MANOJ KUMAR 20060400042	श्री मनोज कुमार, झा0प्र0से0 (प्रथम बैच, गृह जिला-गोड्डा), तत्कालीन अंचल अधिकारी, ओरमांड़ी, राँची के विरुद्ध विभागीय कार्यवाही संचालित किया जाता है।

झारखण्ड राज्यपाल के आदेश से,

अशोक कुमार खेतान,  
सरकार के संयुक्त सचिव  
जीपीएफ संख्या:BHR/BAS/2972.

-----